

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2019—श्रावण 11, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

अधि. क्र. 16-एफ 1-53-2017-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, नरवर, जिला शिवपुरी के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 12, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र. 14, जवाहर लाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 03, नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, सरदार भगत सिंह वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, मौलाना आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	01	(1) वार्ड क्र. 14, जवाहर लाल नेहरू वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 03, नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, सरदार भगत सिंह वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 02, लोकमान्य तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, महात्मा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 09, दमयांती बाई वार्ड (4) वार्ड क्र. 10, चन्द्रशेखर वार्ड (5) वार्ड क्र. 15, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

अधि. क्र. 15-एफ 1-19-2017-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, उमरिया, जिला उमरिया के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 03, संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, संत रविदास वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, शहीद हेमू कालाणी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01 रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्र. 02, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्र. 04, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम वार्ड (4) वार्ड क्र. 05, शहीद भगत सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 09, महावीर स्वामी वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (3) वार्ड क्र. 14, महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड (5) वार्ड क्र. 21, डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, संजय गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, संत रविदास वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, रानी दुर्गावती वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 10, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड (2) वार्ड क्र. 14, महाराणा प्रताप वार्ड (3) वार्ड क्र. 21, डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 06, छत्रपति शिवाजी वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, राजीव गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड (4) वार्ड क्र. 16, बाबा फूलसिंह वार्ड (5) वार्ड क्र. 22, बिरसा मुण्डा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

अधि. क्र. 14-एफ 1-38-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 02, महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, जवाहर लाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, इंदिरा गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 05, विवेकानन्द वार्ड (4) वार्ड क्र. 14, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 10, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, विवेकानन्द वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 07, सुभाष चंद्र बोस वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, भगत सिंह वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, डॉ. राधाकृष्णन वार्ड (4) वार्ड क्र. 12, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2019

अधि. क्र. 13-एफ 1-11-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सांची, जिला रायसेन के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, सरदार पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, स्वामी विवेकानंद वार्ड (3) वार्ड क्र. 06, सम्राट अशोक वार्ड (4) वार्ड क्र. 07, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 04, गंगाधर तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, महात्मा बुद्ध वार्ड (3) वार्ड क्र. 10, महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र. 11, चन्द्र शेखर आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, सम्राट अशोक वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, महारानी लक्ष्मी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 04, गंगाधर तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, महात्मा बुद्ध वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 05, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 13, डॉ. हेडगेवार वार्ड (3) वार्ड क्र. 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.